#### 10 जनसत्ता, 8 मई, 2019

होगा।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 22.05.2016 के 16.00 बजे तक क्रिस्तार्थन /शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, कम्पनी की ब्रेक्साईट: www.bridgeroof.co.in तथा सीपीपी पोर्टल: http://eprocure. gov.in/eprocure/app पर ही प्रकाशित की जायेगी।

# E AND R

## ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम) CIN No.: U27310WB1920GOI003601

"कंकड़िया सेन्टर", (4था एवं 5वां तल), 2/1 रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71

### निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

निम्न कार्यों के लिये वांछित योग्यता मानदंड पूरा करने वाले प्रख्यात, साधन-सम्पन्न तथ अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में मद दर प्रस्ताव आमंत्रित है।

क्र. सं.	61010/ एचएमईएल/ पाइपिग/ एनआईटी/ ०९ तिथिः 06.05.2019	निविदा दस्तावेज बी एंड आर की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं	बोली जमा करने की नियत तिथि
1.	भटिण्डा (पंजाब) में मैं. एचपीसीएल- मित्तल एनजीं लिमिटेड के गुरु गोविन्द सिंह रिफायनरी में गुरु गोविंद सिंह पॉलीमर एडिशन प्रॉजेक्ट के लिये डीएफसीय यूनिट के मिश्रित कार्य में एवव ग्राउण्ड आईबीआर एवं नान-आईबीआर (सीएस, एसएस, एएस, जीआई एवं स्ट्रीम ट्रेसिंग) पाइपिंग का कैब्रिकेशन, इरैक्शन, एलाइन्मेन्ट, सर्पोटिंग, परीक्षण, फ्लशिंग एवं बॉक्स- अप, प्री-कमीशनिंग		20.5.2019

इच्छुक साधन-सम्पन्न ठेकेदार क. की वेबसाईट http://www.bridgeroof.co.in से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

शुद्धिपत्र/ संवर्धन, यदि कोई हो, कम्मनी की वेबसाइटः http://www.bridgeroof.co.in पर ही प्रकाशित की जाएगी।



## महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

#### निविदा आमंत्रण सूचना

एमटीएनएल, नई दिल्ली की ओर से, निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं

- सं. ईई(ई-एस)/एमटीएनएल/बीसीपी/एनआईटी/2019-20/04 आरएसयू वसंत विहार, आरएसयू सनलाइट कॉलोनी, आरएसयू ओखला फंज्-II तथा आरएसयू जामिया मिलिया, नई दिल्ली में डीईए सेटों के व्यापक रखरखाव हेतु ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत ₹8,64,000/-)।
- 2. सं. ईई(ई-एस)/एमटीएनएल/बीसीपी/एनआईटी/2019-20/05 ईई(ई)बीसीपी, नई दिल्ली के अंतर्गत विभिन्न टीई बिल्डिंग/ विभिन्न साइटों में एसी यूनिटों के लिए अनिवार्य कार्य हेतु ऑनलाइन मद दर निवेदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत ₹16,91,450/-)।
- 3. सं. ईई(ई-एस)/एमटीएनएल/बीसीपी/एनआईटी/2019-20/06 ईई(ई)बीसीपी, एमटीएनएल, नई दिल्ली के अंतर्गत विभिन्न टीई बिल्डिंग/आरएसयू/आरएलयू/सिव्य रूमों के लिए डक्टेबल एसी यूनिटों के एसआईटीसी हेतु ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत ₹58,24,800/-)।
- 4. सं. ईई(ई-एस)/एमटीएनएल/बीसीपी/एनआईटी/2019-20/07 एई(ई)बीसीपी, नई विल्ली के अंतर्गत टीई बिल्डिंग बीसीपी तथा विभिन्न आरएसयू में संस्थापित एसी पैकेंज यूनिटों के व्यापक रखरखाव हेतु ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत र्23,90,400/-)।
- 5. सं. **ईई(ई–एस) / एमटीएनएल / बीसीपी / एनआईटी / 2019—20 / 10** ईई(ई)बीसीपी, एमटीएनएल, नई दिल्ली के अंतर्गत टी.ई. बिल्डिंग, हौज खास में एफएफ एवं एफए प्रणाली के संवर्धन हेतु ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत ₹14,60,910 ∕ −) ।
- 6. सं. ईई(ई-एस)/एमटीएनएल/बीसीपी/एनआईटी/2019-20/08 ईई(ई)बीसीपी, एमटीएनएल, नई विल्ली के अंतर्गत टीई भवनों में स्थित विभिन्न सबस्टेशनों में 6x1000 एवं 4x750 केवीए ट्रांसफार्मर के एचटी ओसीबी / वीसीबी संबंधी अनिवार्य कार्य हेतु ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत ₹37,00,840/-)।
- 7. सं. ईई(ई)—केबीएन/सीई(ई)/एमटीएनएल/2019—20/04 टीई बिल्डिंग, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा प्रणाली तथा सहायक उपकरणों के संवर्धन हेतु ऑनलाइन निविदाएं a. आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत रे19 29 385/—)।

आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत ₹19,29,385 / −)। ऑनलाइन निविदाओं के लिए ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइटः http://www.tcil-indiaelectronictender.com एवं http://www.eprocure.gov.in देखें।

पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!

# DCM

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः 174899DL1889PLC000004 पंजी. कार्यालयः विक्रांत टावर, ४, राजेद्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 फोनः (011) 25719967, फैक्सः (011) 25765214 ई—मेल आईडी: Investors@dcm.in, वेबसाइटः www.dcm.in

#### स्चना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(६) के साथ पठित विनिधानकर्त्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखाकर, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम') के अधिकरण में एतद्वारा डीसीएम लिमिटेड ("कंपनी") के उन शैयरधारकों को सूचना दी जाती है जिनके इविवटी शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने के लिए योग्य हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित आईईपीएफ नियमों के अनुसार ऐसे समी शैयर जिनके संबंध में पिछले निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक अवधि से कोई भी लामांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा विनिधानकर्त्ता शिक्षा एवं सरक्षा कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डिमेट खाते में हस्तांतरित किये जाएगें।

कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, पिछले सात वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा घोषित निम्नलिखित लामांशों के संबंध में राशि अप्रदत्त /अदावाकृत बची है:

वित्तीय	लाभांश का	लाभांश (प्रतिशत) (रु. 10	लाभाश राशि रु. में (रु. 10				
্বৰ্ণ	प्रकार	प्रत्येक के प्रति इविवटी शेयर)	प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर)				
2011-12	अंतिम लाभांश	25%	2.50				
2012-13	अंतरिम लाभांश	15%	1.50				
2012-13	अंतिम लाभांश	15%	1.50				
2013-14		15%	1.50				
2013-14	अंतिम लामांश	15%	1.50				
2014-15	अंतरिम लाभांश	15%	1.50				
2014-15	अंतिम लामांश	15%	1.50				
2015-16	अंतरिम लाभांश	15%	1.60				

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अंतिम लामांश, जो अप्रदत्त / अदावाकृत था, उसे पहले ही कंपनी द्वारा प्रासंगिक संगत शेयरों के साथ आईईपीएफ को अंतरित कर दिया गया है।

कंपनी ने पहले ही उन शेयरधारकों को उनके वर्तमान में उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत रूप से सूधना भेज दी है जिनके लामाश पिछले सात वर्षों से लगातार अनिकारित पड़े हैं, जो कि ऊपर दी गई तालिका के अनुसार है, तथा संबंधित इविवटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिनेट खाते में अंतिरित होने के तिए पात्र है। ऐसे शेयरधारकों का नाम एवं उनका फोलियों ने या डीपीआईडी—क्लाइंट आईडी सहित ऐसे शेयरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट www.dom.in पर उपलब्ध है।

ऐसे शंयरधारक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करके 19 अगस्त, 2019 को या उससे पहले कंपनी के कार्यालय विक्रांत टावर, 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 या कंपनी के रिजस्ट्राए एवं शंयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड), एफ्-65, प्रथम तल, ओखला इंडिस्ट्रियल एरिया, फंज-1, नई दिल्ली—110020 के पास अपनी लामांश राशि का दावा कर सकते हैं जिससे आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में उनके संगत इंडिस्ट्रियल एरिया, फंज-1, नई दिल्ली—राजन में उनके संगत लामांश राशि का दावा कर सकते हैं जिससे आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में उनके संगत इंवियटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित होने के लिए पात्र नहीं होने:

यदि शेयरधारक का नाम एक खाताधारक के रूप में चेक पर मुद्रित है तो

 खाताधारक के रूप में शेयरधारक के नाम के साथ रदद किया गया एक मूल चेक यदि शेयरधारक का नाम एक खाताधारक के रूप में चेक पर मुद्रित नहीं है तो

रद्द किया गया एक मूल चेक, और

 खाताधारक के नाम को दर्शाता बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट के प्रथम पृष्ठ की बैंक सत्यापित प्रति, चेक लीफ पर समान बैंक खाता संख्या एवं टाइप और बैंक शाखा का पूरा

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में धारित हैं और शेयर आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए पात्र है, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को ऐसे शेयरों का अंतरण करने के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर नये शैयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयर जारी होने के बाद कंपनी नये श्रेयर प्रमाणपत्र आरी करेगी और ऐसे शेयर जारी होने के बाद कंपनी नये श्रेयर प्रमाणत्र आरी करेगी और अईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में अंतरण के लिए कॉपोरेट एक्शन के द्वारा डिपोजिटरी को सूचित करेगी। ऐसे मामले में उनके नाम पर पंजीकृत मूल श्रेयर प्रमाणत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और यह गैर-परिमेय माने जाएंगे। डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में उनके शर्या के अंतरण के लिए कॉपोरेट एक्शन के माध्यम से डिपोजिटरी को सूचित करेगी।

कपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में इक्किटी शेयर हस्तांतारित करने के बाद संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर तथा बताए गए सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण में कथित इविवटी शेयरों तथा लामांश राशि के संबंध में दावा कर सकते हैं। शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध विवरणों का भी अवलोकन कर सकते हैं।

कृते डीसीएम लिमिटेड हस्ता / – यादिवन्दर गोयल कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 07 मई, 2019

नई दिल्ली







Singh & Guarantor- Mrs. Kalpana Verma W/o Sh. Mahaveer Singh

the name of Mrs Bounded as : Eas North-Property of oth

#### Shikoha

Borrower- Mr. Pankaj Singh, Co- Borrower-Mrs. Urmila Devi and Guarantor-Mrs. Poorna Devi

All that part and parce 248, Vill. Budrai, Teh. In the Name of Mrs. East-House of Bhi North-House of Motiwa

Borrower- M/s Pawan Guest House Prop. Mrs. Nirmala Devi W/o Durg Pal Singh Guarantor- Mr. Durg Pal Singh S/o Sadho Singh, Mr. Raman Yadav S/o Durg Pal Singh

Equitable Mortgage o 1040 (old), Vill. Dak Firozabad, Area-0.92 Durg Pal Singh, Bour Storage, North-Chak I Equitable Mortgage No. 453 (old), Vill. Da

Firozabad, Area-1.03 Acre, In the Name of Mrs. Nirn East-Chak No. 454, West-Chak Road, North-Chak R

Equitable Mortgage of Immovable Property Situate Vill. Dakhinara, Etah Road, Teh. Shikohabad Distt. Mrs. Nirmala Devi W/o Durg Pal Singh, Bounded a: North-Chak Road, South-Chak Road

Date 08-05-2019

## MADHAV MARBLES AND GR

Regd. Off.: First Floor, Mumal Towers, 16, Saheli CIN: L14101RJ1989PLC004903, Web: ww Email: investor.relations@madhavmarbles.co

### NOTICE OF EXTRAORDINARY G

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ( Thursday, May 30, 2019 at 10.00 a.m. at Hotel Rajdarshan, 1 to transact the special business as set out in the said notice.

The Company has completed the dispatch as well as sending of the EGM along with Attendance Slip and Proxy Form has bee addresses have been made available by the depositories or Physical copy of the EGM Notice along with Attendance Slip permitted mode to members who have not registered their ealso available on the website of the Company at www.madhavi Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Ru from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obliga Regulations, 2015, the Members are provided with the facility t set forth in the Notice of the EGM using electronic voting sys the business may be transacted through such remote e-voting. of shareholding as on the cut-off date, i.e. Thursday, May 23, commences on Monday, May 27, 2019 at 9.00 a.m. IST and en 5.00 p.m. IST. During this period, Members may cast their vote module shall be disabled by CDSL thereafter.

The facility for voting through ballot paper shall also be made who have not already cast their vote by remote e-voting shall b EGM. The Members who have cast their vote by remote e-votin the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

A person who has acquired shares and become a Member of t notice of EGM and holding shares as on cut-off date, may ob sending a request to Registrar and Share Transfer agents at an the person is already registered with CDSL for remote e-vot password can be used for casting vote.

In case of any further queries/issues connected with e-voting, frequently asked questions and e-voting manual available at ht For Madha

Place: Udaipur Date: March, 07, 2019

### DCM LIMITED

Corporate Identity Number: L74899DL1889PLC000004 Regd. Office: Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi-110008 Tel: 011-25719967, Fax: 011-25765214 Email: investors@dcm.in, Website: www.dcm.in

#### NOTICE

Notice is hereby given to those equity shareholders of DCM Limited ('the Company'), whose equity shares are liable to be transferred to demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in accordance with Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('IEPF Rules').

As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with IEPF Rules, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company to demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

As per company's record, the amount in respect of following dividends declared by the Company during the last seven years has remained unpaid / unclaimed:

Financial Year	Type of dividend	Dividend (%)(Per equity shares of Rs. 10 each)	Dividend Amount in Rs. (Per equity shares of Rs. 10 each)
2011-12	Final Dividend	25%	2.50
2012-13	Interim Dividend	15%	1.50
2012-13	Final Dividend	15%	1.50
2013-14	Interim Dividend	15%	1.50
2013-14	Final Dividend	15%	1.50
2014-15	Interim Dividend	15%	1.50
2014-15 Final Dividend		15%	1.50
2015-16	Interim Dividend	15%	1.50

Final dividend for the financial year 2010-11, remained unpaid / unclaimed, has already been transferred by the company to IEPF alongwith relevant corresponding shares.

The Company has already sent individual notice(s) to those shareholders, at their latest available addresses, whose devidend amount is lying unincashed for past seven consesutive years, as per table given above, and the corresponding equity shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF Authority. The list of such shareholders including names of such shareholders and their folio no. or DPID -Client ID is available on Company's website www.dcm.in

Such shareholders can claim their dividend amount by making an application along with following documents on or before August 19, 2019 to the Company at Vikrant Tower, 4, Raiendra Place, New Delhi - 110008 or the Registrar and Transfer Agent (RTA) (i.e. MCS Share Transfer Agent Limited) of the Company at F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1 New Delhi-110020 so that their corresponding equity shares shall not become liable to be transferred to demat account of IEPF Authority in compliance with the IEPF Rules:

If the name of the shareholder as account holder is printed on the cheque:

- Cancelled cheque in original bearing the name of the shareholder as account holder ii. If the name of the shareholder as a account holder is not printed on the cheque:
  - Cancelled cheque in original; and

Place: New Delhi

Date: May 07, 2019

Bank attested copy of the first page of the Bank Passbook / Bank Statement showing the names of the accountholders, same bank account number and type as on the cheque leaf and the full address of the Bank branch.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as per the IEPF Rules and upon such issue, the Company shall inform to terr Adultion yea bet life in Tribular and upon some inside, in company as per life in the depository by way of corporate action to convert the new share certificate(s) into demat form and transfer in favour of IEPF Authority. The original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and shall be deemed nonnegotiable. Concerned shareholders holding shares in demat form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of their shares in favour

Subsequent to transfer of equity shares by the Company to demat account of IEPF Authority, the concerned shareholder can claim the said equity shares and dividend(s) amount from IEPF Authority in accordance with the procedures and on submission of such documents as prescribed in IEPF Rules. Shareholder(s) can also refer to the details available on IEPF Authority's website i.e. www.iepf.gov.in

For DCM Limited

Yadvinder Goyal Company Secretary .. Applicant Company / Petitio

Applicant Company Petitioner
NOTICE is hereby given to the General Public that
the company proposes to make application to the
Sentral Government under section 13 of the
Danganies Act 2013 seeking confirmation of
alteration of the Memorandum of Association of the
Company in terms of the special resolution passed
at the Extra Ordinary General Meeting held on 1ª
May, 2019 to enable the company to change its
Registered office from "National Capital Termtory
of Delhi" to "State of Punjab".
Any person whose interest is likely to be affected by
the proposed change of the registered office of the
company may deliver either on the MCA-21
portal (www.mca.gov.in) by filling investor
complaint form or cause to be delivered or send
by registered post of his /her objections supported
by an afficiant stating the nature of his / her
interest and grounds of opposition to the Regional
Director, Northem Region, Ministry of Corporate
Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen
days from the date of publication of this notice with
a copy to the applicant company at its Registered
Office at the address mentioned below.
LOCAL SHOPPING PLAZA NO-2, ROOM NO-

Office at the address mentioned below:
LOCAL SHOPPING PLAZA NO-2, ROOM NO305, 3RD FLOOR, SARASWATI VIHAR,
PITAMPURA, NEW DELHI-11003
FOR 30 n behalf of Appkeant
SARASWATI COTTON GINNING & AGRO
INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
Date: 07 05 2019
Place: New Delhi
Din: 00182729

Date: 07.05.2019 Place: New Delhi

Form INC-26 Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation Rules, 2014)

Proposed change of registered office of Parachute Infrastructure Private Limited from NCT of Delhi to Haryana

#### BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR. NORTHERN REGION, INDIA

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of M/s Parachute Infrastructure Private Limited having its registered office at BD-78 Vishakha Enclave Pitampura, Delhi-

Notice is hereby given to the General Public that the company has made an application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 15th Day of April, 2019 to enable the company to change ts Registered office from NCT of Delhi to

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on www.mca.gov.in or cause to be delivered or send by registered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned

For and on behalf of M/s Parachute Infrastructure Private Limited Sd/-

Date 07.05.2019 ace New Delhi Arun Kumar Sharma Director

New Delhi



Head Office: Lokmangal 1501, Shivajinagar, Pune- 5

Corrigendum Tender for Dispatch of AGM Notice and Annual Report to

Shareholders through Courier Services.

There is a corrigendum to clause No A-5; A-10 & B-4 of our RFP No.01/2019-20 Dt. 02/05/2019, for details refer our website www.bankofmaharashtra.in under tender column.

Pune, 06/05/2019 Asst. Gen. Manager, Corporate Services

# OSBI

Business Intelligence Department, State Bank Global IT Centre, 4th Floor, Tower No. 7, Railway Station Building, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614.

# REQUEST FOR PROPOSAL

State Bank of India has issued a Request For Proposal (RFP) for AMC for Server and Storage. For details, please visit 'Procurement News' at Bank's website https://bank.sbi

Place: Navi Mumbai Date: 07/05/2019

Deputy General Manager (BI - Department)

# DCM LIMITED Corporate Identity Number: L74899DL1889PLC000004

Regd. Office: Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi-110008

Tel: 011-25719967, Fax: 011-25765214 Email: investors@dcm.in, Website: www.dcm.in Notice is hereby given to those equity shareholders of DCM Limited ('the Company'), whose equity shares are liable to be transferred to demat account of Investor Education and

Protection Fund (IEPF) Authority in accordance with Section 124(6) of the Companies Act. 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('IEPF Rules')

As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with IEPF Rules, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company to demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

As per company's record, the amount in respect of following dividends declared by the Company during the last seven years has remained unpaid / unclaimed:

Financial Year	Type of dividend	Dividend (%)(Per equity shares of Rs. 10 each)	Dividend Amount in Rs. (Per equity shares of Rs. 10 each)
2011-12	Final Dividend	25%	2.50
2012-13	Interim Dividend	15%	1.50
2012-13	Final Dividend	15%	1.50
2013-14	Interim Dividend	15%	1.50
2013-14	Final Dividend	15%	1.50
2014-15	Interim Dividend	15%	1.50
2014-15	Final Dividend	15%	1.50
2015-16	Interim Dividend	15%	1.50

Final dividend for the financial year 2010-11, remained unpaid / unclaimed, has already been transferred by the company to IEPF alongwith relevant corresponding shares.

The Company has already sent individual notice(s) to those shareholders, at their latest available addresses, whose devidend amount is lying unincashed for past seven consesutive years, as per table given above, and the corresponding equity shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF Authority. The list of such shareholders including names of such shareholders and their folio no. or DPID -Client ID is available on Company's

Such shareholders can claim their dividend amount by making an application along with following documents on or before August 19, 2019 to the Company at Vikrant Tower, 4 Rajendra Place, New Delhi - 110008 or the Registrar and Transfer Agent (RTA) (i.e. MCS Share Transfer Agent Limited) of the Company at F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1 New Delhi-110020 so that their corresponding equity shares shall not become liable to be transferred to demat account of IEPF Authority in compliance with the IEPF Rules:

If the name of the shareholder as account holder is printed on the cheque: · Cancelled cheque in original bearing the name of the shareholder as account holder

ii. If the name of the shareholder as a account holder is not printed on the cheque:

 Cancelled cheque in original; and Bank attested copy of the first page of the Bank Passbook / Bank Statement showing

the names of the accountholders, same bank account number and type as on the cheque leaf and the full address of the Bank branch

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as per the IEPF Rules and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the new share certificate(s) into demat form and transfer in favour of IEPF Authority. The original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and shall be deemed nonnegotiable. Concerned shareholders holding shares in demat form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of their shares in favour

Subsequent to transfer of equity shares by the Company to demat account of IEPF Authority. the concerned shareholder can claim the said equity shares and dividend(s) amount from IEPF Authority in accordance with the procedures and on submission of such documents as prescribed in IEPF Rules. Shareholder(s) can also refer to the details available on IEPF Authority's website i.e. www.iepf.gov.in

Place: New Delhi Date: May 07, 2019

For DCM Limited Yadvinder Goyal Company Secretary

# For Advertising in

# **EXPRESS CAREERS**

Contact:

# **Mohammed** Shaikh

Tel.: (Direct) 67440402

Mob.: 9867861407

CIN: L51900MH1985PLC036991 REGD OFFICE: Unit No 803, Morya Blue Moon, 8th Floor, Veera Industrial Estate, New Link Road, Opp. Laxmi Industrial Estate, Andheri (West), Mumbai - 400053 NOTICE

8 2 POLLO FINVEST (INDIA) LTD

NOTICE pursuant to Regulation 29, 47 (1)(a) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company will be held at Registered Office of the Company situated at Unit No 803, Morya Blue Moon, 8th Floor, Veera Industrial Estate, New Link Road, Opp. Laxmi Industrial Estate, Andheri (W) Mumbai - 400053, on Wednesday, 15th day of May, 2019 to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended 31st March, 2019.

Mikhil Innani Place: Mumbai **Managing Director** Date: 07.05.2019 DIN: 02710749

For Apollo Finvest (India) Limited.

M/s. Suyash Motors & Mr. Anil Vasantrao Immovable Property Property Standing of the name of Mr. Anil

Date / Amount /

Possession Date

Date & Time of Auction: 21.05.2019,11.45 AM to 1.15 PM (with 10 min unlimited auto extensions)

400066 Tel No.: 022-43331500

email id: info@sangamrenew.com

website: www.sangamrenew.com

Notice is hereby given that pursuant to the

regulation 29 read with regulation 47 of the o

Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligation and Disclosure Requirements

Regulations, 2015, a Meeting of the Board of

Directors of the Company will be held on

Tuesday, May 14, 2019 at 11.00 a.m. to inter

alia, consider and approve the Audited

(Consolidated and Standalone) Financial

Results of the Company for the quarter and

The said information is also available

on the website of the company a

www.sangamrenew.com and may also

be available on Stock Exchange a

For Sangam Renewables Limited

Sharad Kumar Saxena

Whole-Time Director

DIN: 01874149

Limited)

(Formerly known as Sangam Advisors

www.bseindia.com.

Place: Mumbai

Dated: May 06, 2019

Ref No-28/19 -20

Name(s) and

Address of Borrower

**Outstanding amt** 

as on 30.04.2019

property

financial year ended on March 31, 2019.

SANGAM RENEWABLES LIMITED (Formerly known as Sangam Advisors Limited) Tel.: +91-22-6694 1800 CIN: L93000MH1999PLC120470 Fax: +91-22-6694 1818 501 Western Edge - I, Off: Western Express Email: seamec@bom5.vsnl.net.in Highway, Borivali (E), Mumbai, Maharashtra,

The information is also hosted

For SEAMEC LIMITED S. N. Mohanty

Date : 6th May, 2019

### **CENTRAL RAILWAY** SEAMEC LIMITED

CIN: L63032MH1986 PLC154910 Regd. & Corporate Office: A-901-905, 9th Floor, 215 Atrium, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 093, India

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors will be held on Wednesday, the 15th May, 2019 to consider, inter alia, approve Audited Financial Results for the Quarter ended on March 31, 2019 along with the Annual Audited Financial Results for the year ended on March 31, 2019 (Standalone and Consolidated).

on the Company's website at www.seamec.in and may also be accessed on the websites of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

PRESIDENT-Corporate Affairs Legal and Company Secretary Place : Delhi

ISO 9001 :2015 Certified Bank

SAMARTH SAHAKARI BANK LTD., SOLAPUR

H. O. Antrolikar Shopping centre Datta Chowk Solapur 413007

Branch - Shivajinagar Pune 411004 Ph No- 25657565/ 25657556

Email Id: recoverypune@samarthbank.com Mob. No.: 9881736426, 7774052755

Office: Top Life Sankul, Gat No. 1746, At post Dive, Tal. Purandar, Dist. Pune - 412301

Term Loan A/c No.45 Rs.3,66,19,135.00 + Interest + Other Charges + Security Charges

2 C totally admeasuring 00 H.46 R, which is assessed at Rupees 1.75 paise situated at

East: By property of Ashok Shivarkar, South: By Fursungi Manjari Road, West: By 12 ft

Haveli, Pune alongwith RCC Construction thereon, which is bounded as :-

Road, North: By Property of Pralhad More & Madhukar Nigade

All the piece and parcel of property admeasuring about 00 H.05 R out of S.no. 67 Hissa No.

Village: Manjari Budruk, Taluka Haveli, District Pune & within the jurisdiction of Sub-Registrar

**RE - AUCTION SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002** 

Whereas the Authorized Officer of the Bank has issued a demand notice under Section 13(2) of Securitization and

Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act, 2002) and thereafter

in exercise of powers under section 13(12) of SARFAESI Act, 2002 has taken symbolic possession under SARFAESI Act on 09.01.2019 under for recovery of Bank's dues. The Bank has decided to sell the property of Borrowers details herein

below by way of Public Auction as under on "AS IS WHERE IS" basis, for realization of Bank dues.

M/s T.L. Agro Pvt. Ltd.

PAY AND PARK Tender No. BB/C/289/P&P/TDR/05 sites/2019. Dt: 03.05.2019. Senior Divisional Commercial Manager, Mumbai Division, CSMT Mumbai, Central Railway invites e-Tenders on behalf of President of India for Allotment of Space for parking for a period of three years. Name of Station: CSMT Pf. No. 18, Byculla (W), LTT, Nagothane and Kalyan (E) site "K". Type of Contract : Pay and Park. Reserve price per annum: ₹ 93,67,344/-., ₹ 25,62,500/-., ₹ 91,09,000/-., ₹ 74,500/- and ₹ 11,46,900/- (excluding GST) respectively. Earnest Money Deposit ₹ 5,62,100/-, ₹ 1,53,800/-, ₹ 5,46,600/-₹ 10,000/- and ₹ 68,900/- respectively. Cost of Tender Document : ₹ 3,000/each for CSMT, By (W) LTT and Kalyan (E) site "K" and 1,000/- for Nagothane. Date and time for submission of Tender Document: Up to 15.00 Hrs on 04.06.2019 though online at www.ireps.gov.in Date of opening of Tender: 15.30 Hrs on 04.06.2019 through online mode at www.ireps.gov.in Period of contract Tender document (CTD) in respect of e-

Three Years. Payment of Earnest Money Deposits (EMD) and Cost of tender shall be accepted through net banking or payment gateway only. Offer shall be summarily rejected if any other mode adopted for submission of Earnest Money Deposit or Cost of Tender Document. Further Addendum / corrigendum, time extension, clarification etc. If any, in connection with the subject tender, will only be uploaded in the website. Bidders should regularly visit the website to keep themselves updated. Railway reserved the right to accept the work in full or part or reject the tender in full or part without assigning any reasons. Conditional offers will summarily be rejected.

Date: 07.05.2019

**NO NEED TO CHECK** FOR NOTICE MANUALLY Online Public notices Repository Covers 42

Newspapers - Mumbai, Thane (Mortgages, Auction, Default, Redevelopment, Title etc) Useful for Banks, NBFC's, Lawyers, Builders Register to get Alerts

Login: pecanreams.com; or CONTACT

+91-8983327978 PRANAV

on Notices

# HOLDINGS LIMITED

CIN: L67120MH2001PLC217751 Regd. Off.: Village: Vasind, Taluka: Shahapur, District: Thane - 421 604 Phone: 022-4286 1000 / 02527-220022 Fax: 022-4286 3000 / 02527-220020 Website: www.jsw.in

NOTICE NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 8th day of May, 2019, to inter alia, consider and take on record, amongst other business, Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Fourth Quarter (Q4) and year ended on March 31, 2019.

> For JSW Holdings Limited Deepak Bhat

JINDAL Part of O.P. Jindal Group Company Secretary



# **EXPRESSION OF INTEREST (Eol)**

Selection of Service Provider for Turnkey Work of Refurbishment and Renovation of approximately 10,235 sqft. of space on Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi into office complex for National Health Authority

Place: Mumbai

Date: May 2, 2019

**Issued By**: National Health Authority **Eol No.** : *S12012/29/2019-NHA* 

**NATIONAL** Health Authority (NHA) invites proposal from reputed and experienced firms for Selection of Service Provider for Turnkey Work of Refurbishment and Renovation of office complex for National Health Authority. Interested firms/ agencies may submit their proposals along with required support

documents and materials on or before 02.00 PM on 28th May 2019 addressed to:

Tower-I, Jeevan Bharati Building, Connaught Place, New Delhi-110 001" For eligibility criteria, how to apply and other details of the Eol, please visit our web site: www.pmjay.gov.in

"The General Manager (Administration), National Health Authority, 7th & 9th Floor,

Place: New Delhi Date: 7th May 2019 davp 17180/11/0002/1920

B. K. Datta **GM-Administration** National Health Authority, New Delhi

कार्पोरेशन Branch: Khadakwasla, Dist. Pune

Corporation Bank

Possession Notice (For Immovable Property)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Corporation Bank under Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002(said Act) & in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued & published Notice under Section 13 (12) of the said Act, calling upon the concerned borrower, guarantor, as per details given below, to repay the amount mentioned in the respective Notice within 60 days from the date of the respective notice. The Concerned Borrower having failed to repay the respective due amounts, notice is hereby given to the Concerned Borrower and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act on the date mentioned below. The Concerned Borrower and the public in general are hereby cautioned not to deal with the concerned property and any dealing with the said property will be subject to the charge of Corporation Bank, Khadakwasla, Dist. Pune for amounts mentioned below. Outstanding Date of Date of

Account Holder	Amount (Rs.)	Notice National	Possession	
Borrower : Shri. Rushikesh Laxman Mhatre and Mrs. Yogini Rushikesh Mahatre	Rs. 16,84,427/- + Interest thereon	08.02.2019	07.05.2019	Flat No. 202, 203, Second Floor, C Wingh, Shree Samarth Residency, Kondhwe Dhawade, Haveli, Pune - 411041 in Survey No. Gut No. 3/7/A/1/SSP/4760, City or Town Survey No. Hissa No. 3/A/1/SSP/4760 No. Shree Samarth Residency within the registration sub-district Pune and District Pune. <b>Bounded</b> : North: Adj. Wing-B, South: Ent. Lobby and Flat No. 201, East: Open to Sky, West: Open to Sky.

Authorized Officer of Corporation Bank, Khadakwasla, Dist. Pune under Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the undersigned has taken Symbolic possession of the secured assets as per details given above. Copy of the Panchnama and Possession Notice can be collected from the undersigned on any working day during working hours. Date: 07.05.2019 **Authorized Officer** Place: Pune Corporation Bank



Name of Borrower /

Co-Borrower/

Guarantor

Chandrapal Khusiram Pasi

Sewtidevi Chandrapal Pasi

Loan A/c No :-12100004470

penalty as provided under the act.

Sr.

No.

# MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034,

Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051

Description of Secured Asset(s) /

Immovable Property (ies)

AS ON DATE K -303 Oum Orbeet Near Varahi Farm S.pring Road Vinzol Ta

Revenue Survey No 282, TP Scheme No 127, F.p.no 86, Flat No

## DEMAND NOTICE Notice Under Section 13 (2) of The Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And

Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Whereas the undersigned is the Authorised officer of Muthoot Housing Finance Company Ltd. under Securitisation And

Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notices under Section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower, Co-Borrower(s), Guarantor(s) to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notices within 60 days from the date of respective Notices issued to them that are also given below connection with above, Notices hereby given, once again, to the said Borrower, Co-Borrower(s) & Guarantor to pay to MHFCL within 60 days from the publication of this notice, the amount mentioned herein below together with further interest @ 18% p.a. as detailed in the said Demand Notices from the date(s) mentioned below till date of payment and / or realization, payable under the loan Agreement read with other documents / writing if any, executed by the said borrowers(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset (s) have been mortgaged to MHFCL by the said Borrower Co-Borrower(s), Guarantor(s) respectively.

Total

Outstanding

Amount

472286/-

28-09-2018 | City Dist: 382440

Date of

Demand

notice

28-09-2018

	E0011770 140 :- 12 100004470		20 00 20 10	011) 0101.1002110
2	Pravin Bipinbhai Ahir Jagrutiben Pravinbhai Ahir Loan A/c No :-12100075562	28-09-2018	1231735.06/- AS ON DATE 28-09-2018	Panchal Bhuvan, Opp Pipleshware Mahadev, Nr Siddhi Vinayak Flats, Khokhara,nr Soddhi Vinayak Flats Ahmedabad 380008
3	Bharatbhai Hasanand Galani Bharti Bharatkumar Galani Loan A/c No :-12100074740	23-10-2018	1513174.34/- AS ON DATE 22-10-2018	House No 737,mouje Ransan, taluka Gandhinagar, Khodiyar Temple, nikol B.o, Gujarat, 382350
4	Vishnubhai Shankarbhai Rabari Shankarbhai Vershibhai Rabari Loan A/c No :-12100074024	23-10-2018	21964.44/- AS ON DATE 22-10-2018	Flat No C 404, Survy No 4 3 4 6 4 10 5 6 6 4 6 5, Tps No 115f P No 3 3 3 6 3 10 4 6 5 5 4, Devashray City, sardar Patel Ring Road Gatrad Road Ramol, Devashray Farm, Ramol Ahmedabad, Ghatlodia S.o, Gujarat, 380061
5	Mo Imran Yakubhai Sheikh Seemabanu Mohammadimran Sheikh Loan A/c No :-10100003444	23-10-2018	500804.6/- AS ON DATE 22-10-2018	Rn/val/2013-14/15 Flat No 3136, Mahabalipuram - 2 Tandalja Road,vadodara, Gujarat,391110
6	Kantilal Harilal Joshi Rekhaben Kantilal Joshi Loan A/c No :-10100072277	31-01-2019	1227950.12/- as on date 23-01-2019	Flat No 204, 2nd Floor, Radha Krishna Flats Bajwada Sheth Sheri, Nr. Mohanlal Dwarkadas/kalyandas Khadki, Vadodara Pin : 390001 Gujarat
7	Mohamadshafi Moosa Mansuri Nasim Safi Mansuri Loan A/c No :-10100070216	31-01-2019	716553.63/- as on date 23-01-2019	Flat No 303 3rd Floor,sy No 63 64,yashar Complex,tika No 23 1,patel Faliya,,patel Faliya,hathikhana Fatehpura,fatepura S.o (vadodara), Gujarat,390006
8	Sandip Sitaram Pawar Shakuntala Sandip Pawar Loan A/c No :-10100073063	31-01-2019	462695.47/- as on date 23-01-2019	Flat No E 22 16,r S No 559 Paiki T P S No 3 F P No 943,first Floor,,raj Sagar Society Near Reva Park,waghodia Road,raj Sagar Society Near Reva Park Waghodia Road At Danteshwar Ta And Dist Vadodara, at Danteshwar, ajwa Road S.o, Gujarat,390019
9	Kanubhai Ambalalbhai Patel Mayaben Kanubhai Patel Loan A/c No :-10100068561	15-02-2019	1073281.67/- as on date 14-02-2019	Plot No 09, survey No 11 12 14 15, the Gokulesh City, block No 28 29 31 32, Near Khatamba, Shankarpura, near Khatamba Shankarpura, Waghodia, Waghodia Road S.o, Gujarat, 390025
10	Talajabhai Danabhai Charamata Motibhai Desai Loan A/c No :-16100073779	22-11-2018	1045930.9/- as on date 21-11-2018	R.s No 566/1 Block No 1022. T.p No. 66.f.p No 313 Paikp, Om Residency, Buliding No B-2, 1st Floor, Flat No B /101, Moje Kosad Taluka: Surat City, District: Surat 394107
11	Harish Rajendraprasad Goswami Manorma Goswami Loan A/c No :-16100000839	22-11-2018	242867.82/- as on date 21-11-2018	Flat No B2 501,bldg B,shlowk Arcade, 5th Floor, Shlowk Arcade,opp Ohm Complex,opp Ohm Complex, Shlowk Arcade, Surat, Gujarat, 395007
12	Ajay Sukhadev Tripathi Sukhdev Amritlal Tripathi Loan A/c No :-16100062822	31-01-2019	800886.57/- as on date 23-01-2019	Block No 3 4 5,balkrishna Row House, Plot No 661,aradhna Lake Town, Vibhag 2, Jolwa,,b.o, Gujarat,394305
13	Usha Shivnath Dahifale Shivnath Shankar Dahifale Loan A/c No :-16100084850	08-03-2019	778655.02/- as on date 07-03-2019	305, Third Floor, Angan Avenue, In Sai Angan Residency, Jolva, Palsana, Surat, Gujarat-394327
14	Hareshkumar Babubhai Sorathiya Sangitaben Hareshkumar Sorathiya Loan A/c No :-16100085630	23-03-2019	793890/- as on date 22-03-2019	Flat No 510, 05th Floor 88, mahendra Palace, 41, Derod, Kamrej, Kamrej Char Rasta S.o, Gujarat, 394185
15	Kishorkumar Babubhai Sorathiya Daxaben Kishorbhai Sorathiya Babubhai Popatbhai Sorathiya	23-03-2019	808649/- as on date 22-03-2019	509,nr Atmiya Vidhya Mandir,kamrej,mahendra Palace, Derod, Surat, Kamrej S.o, Gujarat, 394180

Loan A/c No :-16100084981 If the said borrowers shall fail to make payment to mhfcl as aforesaid, mhfcl shall proceed against above secured assets under section 13(4) of the act and the applicable rules, entirely at the risks of said borrower, co-borrower(s) & guarantor(s) as to cost and

The said borrower, co-borrower(s) & guarantor(s) are prohibited under the said act to transfer the aforesaid secured asset(s), whether by way of sale, lease or contravention of the provisions of the act or rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or

Place : Gujarat Sd/- Authorised Officer For Muthoot Housing Finance Company Limited Date: 30/04/2019

Description of which is inclusive of the areas of the balconies, along with the amenities which are the Immovable constructed on the Property bearing S.No. 231, Hissa No. 1 A, having new CTS No. 3020 to 3022 & 3026 to 3034 area whereof being 00 H 70 R being assessed of Rs. 4.75 paise situated and laving at Hadapsar, Taluka Haveli, District Pune, within the limits of Pune Municipal Corporation and also within the jurisdiction of Sub - Registrar, Haveli No.3, Pune.

2) All the piece and parcel of Flat No. 106 on first floor of the building A in Siddhivinayak Durvankur "A" Co-Op. Housing Soc.Ltd. having admeasuring area about 506 sq.ft. i.e 47.02 sg.mtr built up area with attached terrace admeasuring 33 sg.ft. i.e. 3.06 sg.mtr in "A" wing 3) All the piece and parcel of property at Gat No.1746 (Old Gat No.3082) totally admeasuring area of 01 H 58 R and pot kharaba about 00 H 05 R which is assessed at Rs. 3.56 paise out of which area admeasuring about 01 H 06 R, situated at village Dive. Taluka Purandar, Dist. Pune and coming within the jurisdiction of Sub Registrar Purandar, Dist. Pune and within local limits of Grampanchayat Dive, which is bounded as :-East: By property of Tulshiram Jadhav, South: By Gairan, West: By property of Tulshiram Jadhav, North: By property of Rajaram Adagale Friday Dt.07.06.2019 Time 12.00 p.m. Samarth Sahakari Bank Ltd., Solapur

Date of Auction. Br. Shivaji Nagar, Gezenia Garden, Appartment, Near Hotel Panchwati Gaurav, At Time & Place BhandarkarRoad Shivaji Nagar, Pune - 411004

Upset Price Rs. 1. Manjari BK property: Rs. 1,26,70,200/- (In words One Crore Twenty Six Lakhs Seventy Thousand Two Hundred Only) 2. Hadapsar Property: Rs.25,51,500/- (In words Twenty Five Lakhs Fifty One

> Thousand Five hundred Only) Rs. 1,79,73,000/- (In words One Crore Seventy Nine Lakhs 3. Dive Property: Seventy Three Thousand Only)

Earnest Money Amt.Rs.1,00,000/- in words One Lakhs Only Deposit (EMD) Rs. Note: 1. The purchaser shall deposit Rs. 1,00,000/- as earnest money before participating in bid, without that he will not be entitled

2. The successful bidder shall deposit the amount equal to 25% of the bid amount on the same date if he fails to deposit 25 % amount of the confirm bid on the same day with the concern officer, then in that case the said property will be sold to another person.

3. Before start of the auction the Terms & Conditions will be read over to the participants. Those are also published on the notice

board of the bank. In case of deposit of the loan amount before auction by the defaulter the auction will be cancelled. Any dues, transfer fees and other charges Relating to Property to be paid successfully bidder/auction purchaser. 6. In case the additional information required same will be made / available at our Shivaji Nagar, Branch Pune.

Authorized officer Date: 08.05.2019 Samarth Sahakari Bank Ltd , Solapur Place: Pune

AUCTION SALE NOTICE State Bank of India Sale Notice For Sale of Immovable Properties Regional Office, Satara

Vasantaro Mane, Situated at Property at Gat No.326/1 (Pai), G Milkat

House No. 179.

BRANCH - SHIRWAL (02178) Main Road, Shirwal, Tal. Khandala, Dist. Satara - 412801, M. No. 7875559452 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets

09.08.2017

03.11.2017

Authorised Officer, Sate Bank of India

Rs.2035685/-

+ INT.

and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the constructive/

physical (whichever is applicable) possession of which has been taken by the Authorized Officer of Sate Bank of India (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 18.05.2019, for recovery of dues as mentioned hereunder to State Bank Of India from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned Name of the Reserve Earnest Date of Date of Amount Name of the Name of the Description of Properties Money Possession Price Demand No. Borrower Guarantor Branch Deposit Notice

No. 3694 & 3709 at Mouje Shirwal, Tal. Khandala Dist. Satara. East Shankarrao Bhosale ) Internal Road, West: Land in Gat No. 326/1, North: Land in Gat No.326/1, South: Land in Gat No. 326/1

ALLAHABAD BANK (A Govt. of India Undertaking)

& Mortgagor / Branch Name

Tyres (Prop. Vasantaro Mane

Date: 26.04.2019, Place: Satara

Ahmedabad Zonal Office, 104/105, First Floor, Zodiac Plaza, H. L. Commerce College Road, Navrangpura, Ahmedabad -380009. Possession Notice Rule-8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] (For Immovable Properties)

Shirwal

Branch

2171000

Description of the Immovable Property

217100

AHEREAS, The Authorised officer of Allahabad Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred on him under section 13(12) (read with rule 3, 8, 9) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice following dated calling upon the borrower to repay the amount mentioned in the notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers/Guarantors/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of the said Act (read with rule 3, 8, 9) of the said rules on the following dates. The borrowers/Guarantors/Mortgagor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with this property as any dealings with the property will be subject to the charge of Allahabad Bank, for an amount and future interest & expenses thereon The Borrower's attention is invited to provisions of section 13(8) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of the time available, to redeem the secured assets. Demand Notice Name of the Borrower/Guarantor

ı	Aaliya Enterprise (Proprietorship firm, Borrower), Mr. Shaikh Samir Mohdmohsin (Proprietor, Mortgagor), Mr. Mohammad Ikramulhaque Nasiruddin Shaikh (Guarantor) Branch: Sola Road Branch	Rs.26,27,670/- as on 28/01/2019	All that piece and parcels of the residential immovable property lying at Flat No. C-506 on 5th Floor, admeasuring about 54.35 square meter of Super Built Up area (38.04 square meter of Built up area) with a undivided share in land in the scheme known as Ekta Avenue on freehold N.A. land bearing City Survey No.3093 to 3166 paiki City survey No.3138 to 3142, F.P. No.143 paiki of T.P. Scheme No.16 at Mouje Village Saherkotda, Taluka, City & District Ahmedabad-7 (Odhav) within the state of Gujarat, standing in the name of Mr. Shaikh Samir Mohdmohsin. The boundaries of the Property are: North: Margin (Open space), South: Flat No. C/505, East: Stairs & Lift, West: Open Space
	Mrs. Shahinbanu Shakilahmed Ansari (Borrower & Mortgagor) & Mr. Shakilahmed Munnabhai Ansari (Borrower) Branch: Lal Darwaza Branch	Rs.16,48,450/- as on 17/02/2019	All that piece and parcels of the residential Flat No. B/404, on 4th Floor of Al Fallah-2 Residency, construction admeasuring super built up area of 79.43 square meter, together with proportionate undivided share in land admeasuring 15.24 square meter, lying at Final Plot No.38 of T.P Scheme No.89 (Vatva-1), plot admeasuring 4917 square meter at Moje Vatva, Taluka Ahmedabad City East in the District of Ahmedabad and Registration Sub District of Ahmedabad-11 (Aslali) and within the state of Gujarat, in the name of Mrs. Shahinbanu Shakilahmed Ansari. The boundaries of the Property are: North: Passage, South: Margin & Block A, East: Lift, Open Space & Flat No. 405, West: Flat No. 403
Ra Dh	Jagjit Corporation (Proprietorship firm, Borrower), Mr. Jagdish Ramjibhai Shah (Proprietor & Mortgagor) and Mr. Rajesh Dhayabhai Shah (Guarantor) Branch: MK High School Alkapuri Branch	Rs.36,80,449/- as on 11/02/2019 / 04-05-2019	Property-1: All that piece and parcels of the commercial property situate at Jigbhav Complex on Basement Floor of Shop No. B-102, bearing City Survey No. 1133, admeasuring built up area of 280 square feet at Moje Village Nizampura and District Vadodara, within the state of Gujarat, in the arme of Mr. Jagdishbhai Ramjibhai Shah. The boundaries of the Property are: North: Shop No. B-101, South: Shop No. B-103, East: 20 feet Road, West: Highway No. 8 Road  Property-2: All that piece and parcels of the residential property situate at Tenament No. 180 of Purvadi Samratnagar Vibhag-2, admeasuring Plot area of 70 square yard and built up area of 52.94 square meter, bearing Survey No.41, T.P Scheme No.50 at Moje Village Bage Firdos and District Ahmedabad, within the state of Gujarat, in the name of Mr. Jagdishbhai Ramjibhai Shah. The boundaries of the Property are: North: Road, South: House No. 182, East: House No. 181, West:

Authorized Officer, Allahabad Bank